

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2014 (वैसाख 27, 1936)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2014 (VAISAKHA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अप्रैल 2014

सं. आरएस/6/4/2014/24-का.--श्री भुवनेश्वर कालिता की आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री सिद्धार्थ कालिता की आवास समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति 10 अप्रैल, 2014 अर्थात् श्री भुवनेश्वर कालिता की आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति की तारीख से जारी रखी जा रही है।

2. श्री सिद्धार्थ कालिता की नियुक्ति आवास समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 2 मई 2014

सं.आरएस./6/4/2014/25-कार्मिक--निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्षों के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, जैसा कि उनके नामों के समक्ष लिखा है, नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 10 अप्रैल, 2014 से प्रभावी 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 24 अप्रैल, 2014 के अपराह्न से समाप्त की जाती है:-

क्रम सं.	वरिष्ठ निजी सचिव का नाम	समिति एवं अध्यक्ष का नाम
1.	श्री सतीश धर	अध्यक्ष, वाणिज्य संबंधी समिति (श्री शांता कुमार)
2.	श्री कुंदन सिंह राणा	अध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी)

एस.रंगराजन, संयुक्त-निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. ए. 32014/2/2005-प्रशा-1(वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी सहर्ष श्री गंगेश कुमार, सहायक (विधि) को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में नियमित आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद पर रूपए 9300-34800/- के वेतन बैंड 2 और रूपए 4800/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 16 अप्रैल, 2014 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. ए. 32012/1/2011-प्रशा-1(वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष श्री एस.जे. परमार, उप विधायी परामर्शी (क्षेत्रीय भाषा शाखा), राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के उक्त खंड में नियमित आधार पर अपर विधायी परामर्शी (क्षेत्रीय भाषा शाखा) के पद पर रूपए 37400-67000/- के वेतन बैंड 4 और रूपए 8700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2014

सं. आई-14011/30/2013-आई पी एस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 09/04/2014 को चयन समिति की दिनांक 13/03/2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2012 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग में कुल 09 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:-

चयन सूची 2012

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.@	हरिदास टी० के०	27/05/1957
2.	जैकब जौब	10/03/1958
3.	गोपाल कृष्णन वी०	30/05/1958
4.	श्रीधरन जी०	21/11/1958
5.	सायमन के० जी०	23/12/1960
6.	पुष्करन एम० के०	23/05/1959

@ क्रम संख्या 1 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के निपटान के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम पीठ के दिनांक 17/03/2014 को श्री टी गोपालकृष्ण पिल्लै के द्वारा दायर ओ० ए० संख्या 1193/2013, में पारित आदेशानुसार उपर्युक्त चयन सूची ओ० ए० संख्या 1193/2013 के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/30/2013-आई पी एस-1(II)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम पीठ में श्री जैकब जौब एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य द्वारा दायर ओ० ए० संख्या 1093/2013 में पारित आदेश दिनांक 17/03/2014 के

आलोक में, केरल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं:-

चयन सूची 2012

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	जैकब जौब	10/03/1958
2.	गोपाल कृष्णन वी०	30/05/1958
3.	श्रीधरन जी०	21/11/1958
4.	सायमन के० जी०	23/12/1960
5.	पुष्करन एम० के०	23/05/1959

- माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एर्नाकुलम पीठ के दिनांक 17/03/2014 को श्री टी गोपालकृष्ण पिल्लै द्वारा दायर ओ० ए० संख्या 1193/2013, में पारित आदेशानुसार उपर्युक्त नियुक्तियां ओ० ए० संख्या 1193/2013 के परिणाम के अध्यधीन होंगी।
- यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं.11011/10/2013-प्रशि.(सप्रप्रसं)I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सीएसएस सेवा संवर्ग की अवर सचिव, श्रीमती आर. गायत्री को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 30.08.2013 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

सं.11011/10/2013-प्रशि.(सप्रप्रसं)I--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएस सेवा संवर्ग के अवर सचिव, श्री नरेश भारद्वाज को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 16.07.2013 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2014

सं.11011/43/2013-प्रशि.(सप्रप्रसं)I--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्रीमती जयश्री चेल्लामणि को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (सप्रप्रसं), नई दिल्ली में दिनांक 31.03.2014 की अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

सं.11011/43/2013-प्रशि.(सप्रप्रसं)I--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के डेस्क अधिकारी श्री प्रमोद कुमार जयसवाल को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (सप्रप्रसं), नई दिल्ली में दिनांक 07.04.2014 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2014

सं.सी-18018/3/2009-सीएसी (भाग-I)--14 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. पीएफसीए (273)/एड.1 में आंशिक संशोधन करते हुए और 2011 की रिट याचिका सं. 6670 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2013 के निर्णय के अनुपालन में, पूर्व सहायक निदेशक (लागत) श्री ए. एस. हरिहर कुमार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख 14 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से संशोधित करके 16 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) कर दी गई है।

के. के. महावर, उप निदेशक

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2014

सं. ए-12022/1/2013-स्थापना-I—राष्ट्रपति, श्री रविन्द्र, आईएएस (उ.प्र.: 99) को 19 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल.के.शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं.ए-12022/20/2013-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सुशील आर. गायकवाड़, भारतीय रेल यातायात सेवा (1998) को, वस्त्र मंत्रालय में निदेशक के पद पर 37400-67000 रुपए (पेबैंड-4) + 8700 रुपए (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

जी. के. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

दिल्ली-110011, दिनांक 1 मई 2014

संख्या. ए. 12025/118/2013-सीएचएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. परिमिता बरुआ को 26.12.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600-39100/-) + रुपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. परिमिता बरुआ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. परिमिता बरुआ अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

संख्या ए. 12025/41/2013-सीएचएस 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राकेश बसाक को 10.08.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600-39100/-) + रुपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. राकेश बसाक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. राकेश बसाक अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

संख्या ए. 12025/23/2010-सीएचएस 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. बलजीत कौर को 04.06.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600-39100/-) + रुपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. बलजीत कौर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. बलजीत कौर अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2014

सं.ए-32014/1/2011-स्था. : राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2009, 2010 एवं 2011 के आधार पर अधिकारियों के नामों के सामने यथा उल्लिखित वर्ष के लिए अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी की चयन सूची में उनके समावेश के परिणामस्वरूप और दिनांक 13 अगस्त, 2013, 19 अगस्त, 2013 और 30 अगस्त, 2013 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन के अनुसरण में, उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से इस मंत्रालय में नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में के.स.से. संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री कुमार राजीव रंजन	2009	30.8.2013 (अपराह)
2.	श्री धीरेन्द्र मोहन खरे	2009	24.9.2013 (पूर्वाह)
3.	श्री एम. रवि	2009	30.8.2013 (पूर्वाह)
4.	श्री विजय कुमार गुप्ता	2009	13.8.2013 (पूर्वाह)
5.	श्री कमल देव	2009	18.9.2013 (पूर्वाह)
6.	श्री आशीष कुमार	2009	20.9.2013 (अपराह)
7.	श्री लामखोमांग	2009	3.9.2013 (पूर्वाह)
8.	श्री सिमांता बोरसैकिया	2009	23.8.2013 (पूर्वाह)
9.	श्रीमती शोभा रानी तिरु	2009	3.9.2013 (पूर्वाह)
10.	श्री एम.जी. शशिधरण	2010	18.9.2013 (पूर्वाह)
11.	श्री संजय गुप्ता तरुण	2010	19.8.2013 (पूर्वाह)
12.	श्री अवधेश कुमार गुप्ता	2011	31.3.2014 (अपराह)
13.	श्री रवीश चंद्र शर्मा	2011	9.9.2013 (पूर्वाह)
14.	श्रीमती वसंता कुमारी नायर	2011	7.10.2013 (पूर्वाह)

एन.पी.जोशी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं० 9-19/2008-एमसी (वॉल-III): राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2014 के का० झा० सं० 4/30/2012-ईओ (एमएम-I) द्वारा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री दिनेश सिंह बिष्ट, [आईपीएस (बीएच:1987)] को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रबंध निदेशक के रूप में 37,400 - 67,000/- (पीबी-4) + 10,000/- के ग्रेड वेतन में इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री अबरार अहमद, आईआरएस (आईटी:1980) के दिनांक 10.09.2012 को उनके मूल संवर्ग में समय-पूर्व संप्रत्यावर्तन पर उनके स्थान पर नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2014

सं.पीएफ-10231/प्रशासन-I--सुश्री एन सी एक्का, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ), दूरसंचार विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च, 2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली- 110 003, दिनांक 2 अप्रैल 2014

सं. 4(927)/14-का.1 : राष्ट्रपति जी ने श्री संतोष कुमार पटेल (कर्मचारी कोड सं. 1102) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 24.03.2014 के पूर्वाह्न से 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/-रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।
3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. 4(928)/14-का.1 : राष्ट्रपति जी ने श्री अनिल कुमार यादव (कर्मचारी कोड सं. 1103) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 11.04.2014 के पूर्वाह्न से 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/- रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/-रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।
3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 21 अप्रैल 2014

सं. 4(930)/14-का.1 : राष्ट्रपति जी ने श्री जय वर्धन तिवारी (कर्मचारी कोड सं. 1105) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 21.04.2014 के पूर्वाह्न से 6600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/- रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/- रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।
3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(929)/14-का.। : राष्ट्रपति जी ने श्री अजय चंद्राकर (कर्मचारी कोड सं. 1104) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 17.04.2014 के पूर्वाह्न से 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/- रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/- रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. 4(931)/14-का.। : राष्ट्रपति जी ने श्री छत्रसाल चन्द्र (कर्मचारी कोड सं. 1106) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 22.04.2014 के पूर्वाह्न से 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/- रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म०प्र० परिमंडल,
भोपाल-462012, दिनांक 11 अप्रैल 2014

विषय :- म०प्र० डाक परिमंडल में सहायक डाक अधीक्षक की पदोन्नति तथा पदस्थापना।

सं. एस.टी.ए/18-1/ए.एस.पी/2013-14—मुख्य पोस्टमास्टर जनरल म०प्र० डाक परिमंडल भोपाल द्वारा निम्नलिखित डाकघर निरीक्षकों को पी.बी.-II (पे बैंड-2) रु० 9300-34800/- ग्रेड पे-4600/- के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक डाक अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेश तक जारी रहेगी।

सहायक डाक अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों को निम्नलिखित क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पर आवंटित परिक्षेत्र
1	एस० के० तिवारी -1	सामान्य	उप संभागीय निरीक्षक (डाक) बरेली विदिषा	मुख्यालय क्षेत्र
2	पी०के० वर्मा	सामान्य	पी० आई० ईटारसी भोपाल आर.एम.एस.	मुख्यालय क्षेत्र
3	चेतन आनन्द	सामान्य	सेना डाक सेवा (APS) में प्रतिनियुक्ति पर (भोपाल आर.एम.एस.)	मुख्यालय क्षेत्र
4	खलिक षाह	सामान्य	ए०एस०पी० (मुख्या०) जबलपुर (तदर्थ)	इंदौर परिक्षेत्र
5	डा० ज्योति पाण्डेय	सामान्य	ए०एस०आर०एम० सीआरसी, भोपाल आर.एम. एस. (तदर्थ)	मुख्यालय क्षेत्र
6	के०एस० पवार	सामान्य	ए.एस.पी. नीमच, मन्दसौर (तदर्थ)	इंदौर परिक्षेत्र
7	मंगल पाटिल	अ०जा०	पी० आई० भोपाल आर.एम.एस.	मुख्यालय क्षेत्र

1. सामान्य निर्देश :-

- (i) इंदौर परिक्षेत्र को आवंटित अधिकारियों के पदस्थापना आदेश पोस्टमास्टर जनरल इंदौर द्वारा जारी किये जायेंगे । मुख्यालय परिक्षेत्र के पदस्थापना आदेश अलग से जारी किये जावेंगे ।
- (ii) पुनः आवंटन हेतु प्राप्त किसी भी प्रकार के आवेदन पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा । एक वर्ष की अवधि में ली गई छुट्टियों की गणना नहीं की जाएगी ।
- (iii) संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट की एक प्रति सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला एवं सतर्कता) परिमण्डल कार्यालय भोपाल को भेजें ।
- (iv) वारिष्ठता अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15 दिन के अंदर भेजे जाने चाहिए ।
- (v) आवश्यक चार्ज रिपोर्ट इस आदेश के जारी होने के एक सप्ताह के अंदर भेजी जानी चाहिए ।
- (vi) यदि कोई अधिकारी इस पदोन्नति हेतु अनिच्छुक है तो वह अपनी असहमति लिखित रूप में परिमण्डल कार्यालय भोपाल को तैनाती आदेश जारी होने से 30 दिन के भीतर भेजे ।

2. सतर्कता/अनुशासनात्मक प्रकरण, यदि कोई हो —

कर्मचारी के संबंध में कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित होने पर इस कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बिना उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाए । यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध दण्ड जारी है तो उसे दण्डावधि समाप्त होने से पूर्व पदोन्नत न किया जाए । इस संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जानी चाहिए ।

3. वेतन निर्धारण का विकल्प :

यदि अधिकारी एफ.आर. 22 (९) (1) के तहत अपने वेतन तिथि का निर्धारण चाहता है, तो वह पदोन्नति से एक माह के भीतर इस संबंध में अपना विकल्प दे सकता है ।

ए.सी.पी/एम.ए.सी.पी योजना के तहत जिन कर्मचारियों को दूसरी वित्तीय क्रमोन्नति मिल चुकी है वे सहायक अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु पात्र नहीं हैं ।

एल0एस0 चौधरी, सहायक पोस्टमास्टर जनरल
(स्टाफ एवं सतर्कता)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. ए.32014/1/2013-प्रशा.--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2009 के परिणाम के आधार पर वर्ष 2009 के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में उनके शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री जयप्रकाश सिंह, नियमित सहायक एवं नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में तदर्थ अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न, को ग्रेड पे 4800/- रु., 9300-34800 रु. के पे बैंड-2 में दिनांक 13 अगस्त, 2013 (पूर्वाह्न) से तत्काल प्रभाव से नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वर्ष 2009 के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची के सापेक्ष में श्री जय प्रकाश सिंह की नियुक्ति निम्नांकित न्यायालय मामलों के परिणाम के अध्यधीन और किसी भी अन्य संबंधित मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अनुसार होगी:-

- (i) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) नई दिल्ली में श्री राजीव आर और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दाखिल ओए सं0 4135/2012, एमए सं0 3477/2012
- (ii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) नई दिल्ली में श्री एम.आर.मीणा और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दाखिल ओए सं0 4082/2012 और एमए सं0 3448/2012
- (iii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) नई दिल्ली में श्री शान्ति लाल बौरासी और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दाखिल ओए सं0 4141/2012

3. अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति पर, श्री जय प्रकाश सिंह को मंत्रालय (मुख्य) में तैनात किया जाता है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2014

सं. ए-12023/1/2012-ई-1--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के का. जा. सं. 4/2/2013-ईओ (एमएम-1) दिनांक 12.02.2014 के अनुसरण में, श्री प्रशांत कुमार पोनूगोटी (आईटीएस:91) को वेतन बैंड-4, 37,400-67,000/- रुपए + 8700/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 18.02.2014 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 05.03.2018 तक अथवा जब तक वे मंत्रीजी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए को-टर्मिनस आधार पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 अप्रैल 2014

सं.ए-12033/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में इस समय उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड) के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 7.3.2014 के आदेश सं.3/1/2011-

सीएस-1 (डी) के तहत वर्ष 2013 के लिए वरिष्ठ सलेक्शन ग्रेड (निदेशक) के पद पर पदोन्नति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने तथा इस मंत्रालय में निदेशक के पद पर उनकी तैनाती किए जाने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय में पे-बैंड-4, रूपए 37,400-67,000/- रु.+8700/- रु. के ग्रेड पे में उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से अगला आदेश दिए जाने तक निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सलेक्शन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और सीएसएल नं.	निदेशक पद पर नियुक्ति की तारीख
1	श्रीमती माया प्रकाश (सीएसएल नं.4664)	10.03.2014 (पूर्वाहन)
2	श्री वी.कृष्णास्वामी (सीएसएल नं.4290)	07.03.2014 (पूर्वाहन)

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/744/2006-ई-1--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2013 के आदेश संख्या 5/8/2013-सीएस.1 (यू) और दिनांक 29.01.2014 के का. जा. सं. 5/8/2013-सीएस-1 (यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री विक्रम सिंह (सीएसएल सं. 8430) को पे बैंड -3, 15,600-39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में 24.12.2013 (पूर्वाह्न) से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-
 - (i) यह तदर्थ पदोन्नति, इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता संबंधी दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
 - (ii) तदर्थ आधार पर यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।
 - (iii) तदर्थ आधार पर अवर सचिव ग्रेड में की गई सेवा अवधि उस ग्रेड में न तो वरिष्ठता संबंधी दावों में और न ही अगले ऊँचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु मानी जाएगी ।
 - (iv) जिन अधिकारियों ने सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथा-आदेशित अनिवार्य स्तर 'घ' प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित किए जाने पर उक्त प्रशिक्षण लेना होगा ।

3. वह 31.3.2014 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से इस निदेश के साथ कार्य—मुक्त रहेंगे कि अगले आदेश हेतु वह रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करें।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2014

सं. ए-12023/1/2013-ई-1--राष्ट्रपति, श्री सोमैय्या कलमाड़ी को पे बैंड-3, रूपए 15,600-39,100/- रु.+ 6600/- रु. के ग्रेड पे में 17.06.2013 (पूर्वाह्न) से सह-कालिक आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 5 मई 2014

सं. 6/440/2010-प्रशा. 1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-1(डी) के अनुसरण में श्री आर. पी. बत्रा, उपनिदेशक को रु. 37,400-67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,700/-के ग्रेड वेतन के साथ निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर 30 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है

सुरेश कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th April 2014

No. RS/6/4/2014/24-Perl.—Consequent upon the re-appointment of Shri Bhubaneswar Kalita as the Chairman of the House Committee, the appointment of Shri Siddhartha Kalita in the grade of Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, House Committee is being continued w.e.f. 10th April, 2014, i.e., the date of re-appointment of Shri Bhubaneswar Kalita as the Chairman of the House Committee.

2. The appointment of Shri Siddhartha Kalita is at the discretion of the present Chairman, House Committee and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 2nd May 2014

No. RS/6/4/2014/25-Perl.—The services of the following persons, who were appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of respective Chairmen of the Department-related Parliamentary Standing Committees shown against their names, stand terminated w.e.f. the afternoon of 24th April, 2014 after granting them a winding up period of 15 days w.e.f. 10th April, 2014 :--

S.No.	Name of Senior Private Secretary	Name of the Committee & Chairman
1.	Shri Satish Dhar	Chairman, Committee on Commerce (Shri Shanta Kumar)
2.	Shri Kundan Singh Rana	Chairman, Committee on Science & Technology, Environment & Forests (Dr. T. Subbarami Reddy)

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 17th April 2014

No.A.32014/2/2005-Admn.I (LD)—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice is pleased to appoint Shri Gangesh Kumar, Assistant (Legal) to the post of Superintendent (Legal) in the Pay-Band -2 of Rs.9300--34,800/- plus Grade Pay of Rs.4800/- on regular basis in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice with effect from the forenoon of 16th April, 2014 and until further orders.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

The 23rd April 2014

No.A.32012/1/2011-Admn.I (LD)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri S.J. Parmar, Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Pay-Band-4 of Rs.37400-67000/- plus Grade Pay of Rs.8700/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on regular basis w.e.f. the forenoon of 21st April, 2014 and until further orders.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd May 2014

No. I-14011/30/2013-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on

09.04.2014 approved the Select List of the year 2012, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 13.03.2014, containing the names of the following State Police Service officers of Kerala, towards filling up 9 substantive vacancies in the Kerala Cadre of IPS:—

Select List 2012

S.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1 @	Haridas T. K.	27.05.1957
2	Jacob Job	10.03.1958
3	Gopal Krishnan V.	30.05.1958
4	Sreedharan G.	21.11.1958
5	Simon K. G.	23.12.1960
6	Pushkaran M. K.	23.05.1959

@ The name at Sl.No.1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him.

2. As per the order dated 17.03.2014 passed by the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench in OA No. 1193/2013 filed by Shri T. Goplakrishna Pillai the above Select List shall be subject to the final outcome of the OA No. 1193/2013.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/30/2013-IPS-I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) regulations, 1955, and in pursuance to order dated 17.03.2014 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench in O.A. No. 1093/2013 filed by Shri Jacob Job and Another Vs Union of India & others, the President is pleased to appoint the following members of Kerala Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Kerala Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2012

S.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Jacob Job	10.03.1958
2	Gopal Krishnan V.	30.05.1958
3	Sreedharan G.	21.11.1958
4	Simon K. G.	23.12.1960
5	Pushkaran M. K.	23.05.1959

2. As per the order dated 17.03.2014 passed by the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench in OA No. 1193/2013 filed by Shri T. Goplakrishna Pillai the above Select List shall be subject to the final outcome of the OA No. 1193/2013.

3. The appointments will take effect from the date of issuance of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 30th April 2014

No.11011/10/2013-Trg(ISTM)--The President is pleased to appoint to Smt. R. Gayathri, Under Secretary of CSS Cadre, Department of Personnel & Training, as Deputy Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years w.e.f. the forenoon of 30.08.2013 or till the further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

No.11011/10/2013-Trg(ISTM) —The President is pleased to appoint to Shri Naresh Bhardwaj, Under Secretary of CSS Cadre, Ministry of Urban Development, as Deputy Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years w.e.f. the forenoon of 16.07.2013 or till the further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

The 1st May 2014

No.11011/43/2013-Trg(ISTM)--The President is pleased to appoint to Smt. Jayashree Chellamani, Section Officer of CSS Cadre, Department of Personnel & Training as Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years w.e.f. the afternoon of 31.03.2014 or till the further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

No.11011/43/2013-Trg(ISTM)--The President is pleased to appoint to Shri Pramod Kumar Jaiswal, Desk Officer of CSS Cadre, Ministry of Urban Development as Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years w.e.f. the afternoon of 07.04.2014 or till the further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)
OFFICE OF THE CHIEF ADVISER COST

New Delhi, the 4th April 2014

No.C-18018/3/2009-CAC (Part-I).--In partial modification to the Notification No. PFCA(273)/Ad.-I dated 14th July, 2008, and in compliance of the judgment of Hon'ble Madras High Court dated 07.10.2013 in W.P. No.6670 of 2011, the date of voluntary retirement of Sh. A.S. Harihar Kumar, Ex-Assistant Director (Cost) has been modified as 16th July, 2008 (Forenoon) from 14th July, 2008 (Forenoon).

K.K. MAHAWAR, Dy. Dir.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 16th April 2014

No. A-12022/1/2013-E.I.--The President is pleased to appoint Shri Ravinder, IAS(UP:99) as Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, for a period of five years with effect from the forenoon of 19th March, 2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

L.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES
New Delhi, the 28th April 2014

No.A-12022/20/2013-Estt--The President is pleased to appoint Shri Sushil R. Gaikwad, Indian Railway Traffic Service (1998) as Director in the Ministry of Textiles in the pay scale of Rs.37400—67000/- (Pay Band 4) + Rs. 8700/- (Grade Pay) with effect from forenoon of 28th April, 2014 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

G.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi-110 011, the 1st May 2014

No. A-12025/118/2013-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Parimita Barua to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15600--39100] + Grade Pay Rs.5400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 26.12.2013 until

further orders. Dr. Parimita Barua is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Parimita Barua shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/41/2013-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Basak to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15600—39100/-] + Grade Pay Rs. 5400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 10.08.2013 until further orders. Dr. Rakesh Basak is posted as Medical Officer under Ministry of Labour & Employment, Delhi. Dr. Rakesh Basak shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No.A.12025/23/2010-CHS.I--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Baljeet Kaur to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 [Rs.15600-39100/-] + Grade Pay Rs. 5400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04.06.2013 until further orders. Dr. Baljeet Kaur is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Baljeet Kaur shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 6th May 2014

No. A-32014/1/2011-Estt.--Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year as mentioned against their names on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 & 2011 held by Union Public Service Commission and in pursuance of Department of Personnel & Training Office Memorandum dated 13th August, 2013, 19th August, 2013 and 30th August, 2013, the President is pleased to appoint the following Officers of CSS Cadre as regular Section Officer in this Ministry w.e.f. the date mentioned against their names :-

Sl No.	Name of the Officer	Select List Year	Date of Joining
1	Shri Kumar Rajiv Ranjan	2009	30.8.2013 (AN)
2	Shri Dheerendra Mohan Khare	2009	24.9.2013 (FN)
3	Shri M Ravi	2009	30.8.2013 (FN)
4	Shri Vijay Kumar Gupta	2009	13.8.2013 (FN)
5	Shri Kamal Dev	2009	18.9.2013 (FN)
6	Shri Ashish Kumar	2009	20.9.2013 (AN)
7	Shri Lamkhomang	2009	3.9.2013 (FN)
8	Shri Simanta Borsaikia	2009	23.8.2013 (FN)
9	Smt. Shobha Rani Tiru	2009	3.9.2013 (FN)
10	Shri M.G. Sasidharan	2010	18.9.2013 (FN)
11	Shri Sanjay Kumar Tarun	2010	19.8.2013 (FN)
12	Shri Awadehsh Kumar Gupta	2011	31.3.2014 (AN)
13	Shri Ravish Chandra Sharma	2011	9.9.2013 (FN)
14	Smt. Vasantha Kumari Nair	2011	7.10.2013 (FN)

N.P. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 22nd April 2014

No. 9-19/2008-MC (Vol-III)--In pursuance of approval of the Appointments Committee of the Cabinet, vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/30/2012-EO(SM-I) dated 24th March, 2014, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Singh Bist, [IPS(BH:1987)] to the post of Managing Director, National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band of Rs. 37,400--67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years from the date of taking over the charge of post, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Abrar Ahmed, IRS (IT:1980) on his premature repatriation to parent cadre on 10.09.2012.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 31st March 2014

No. PF- 10231/Admn.I : On attaining the age of superannuation, Ms. N.C. Ekka, Section Officer (ad-hoc), Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2014.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 2nd April 2014

No. 4(927)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Patel (E.Code-1102) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15600--39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 24.03.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 11th April 2014

No. 4(928)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Yadava (E.Code-1103) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15600--39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 11.04.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 21st April 2014

No. 4(930)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Sh. Jay Verdhani Tiwari (E.Code-1105) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15600--39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 21.04.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

No. 4(929)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Shri Ajay Chandrakar (E.Code-1104) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15600--39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 17.04.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

The 23rd April 2014

No. 4(931)/14-Pers.I: The President is pleased to appoint Shri Chhatrasal Chandra (E.Code-1106) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15600--39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 22.04.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

DEPARTMENT OF POSTS

O/O THE CHIEF POSTMASTER GENERAL

Bhopal, the 11th April 2014

Sub:- Promotion and posting in ASP cadre in M.P. Circle.

No. STA /18-1/ASP/2013-14--The Chief Postmaster General M.P.Circle Bhopal is pleased to appoint the following Inspector Posts in ASP Cadre (Gazetted Group B) in Pay Band (PB -2) of Rs. 9300—34800/- + Grade Pay of Rs. 4600/- on regular basis with effect from the date of assumption of charge.

2. The officers on promotion in ASP Cadre are allotted to the Region mentioned against each:-

Sl. No.	Name of the Official	Category	Present posting	Region allotted on promotion
	S/Shri/Smt.			
1	S.K.Tiwari -I	OC	SDI(P) Bareli, Vidisha	HQ Region
2	P.K.Verma	OC	P.I.Itarsi, Bhopal RMS	HQ Region
3	Chetan Anand	OC	On Deputation to APS (RMS "MP" Dn. Bhopal)	HQ Region
4	Khaliq Shah	OC	ASP(HQ) Jabalpur (Adhoc)	Indore region
5	Dr.(Smt.) Jyoti Pandey	OC	ASRM CRC, RMS Bhopal (Adhoc)	HQ Region
6	K.S.Pawar	OC	ASP Neemach, Mandur (Adhoc)	Indore region
7	Mangal Patil	SC	P.I.Bhopal RMS	HQ Region

3. General Conditions:-

- The PMG Indore may issue the posting orders for the officer allotted to Indore Region. Posting orders for HQ Region will be issued separately.
- No re-allotment requests will be considered within a period of one year. Leave taken during this period will not be counted for calculation of one year period for considering requests for re-allotment.
- It is the officers responsibility to send a copy of the charge report on assumption of charge on promoted post to APMG (Staff) C.O. Bhopal for record purpose.

- (iv) If there are grievances regarding seniority or any other complaint representation, if any, should be made within 15 days from the date of issue of the order.
- (v) Officers should sent necessary charge report within a week from the Date of issue of this order.
- (vi) In case, an officer is not willing to accept the promotion, his/her declination letter in writing should be received in CO Bhopal within 30 days from the date of issue of posting order.

4. Vigilance/Disciplinary case, if any :-

In case, any Vig./Disc. case is pending against the officials, they should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The officers against whom any punishment is current, they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

5. Option for fixation of pay:-

If the officer who wishes to give, option for choosing date for fixation of pay under FR 22(I) (a) (i) should do so with in one month from the date of promotion.

The officials who have been granted second financial up-gradation under the scheme of ACP/MACP, are not entitled for pay fixation on promotion to ASP Cadre.

L.S.CHOUDHARY, Asstt.Postmaster General (Staff)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 22nd April 2014

No. A.32014/1/2013-Admn.--Consequent upon his inclusion in the Select List of Section Officers for the year 2009 on the basis of results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009 held by the UPSC, the President is pleased to appoint Shri Jai Prakash Singh, regular Assistant and officiating as Section Officer borne in the cadre of Ministry of Civil Aviation as Section Officer on regular basis in the PB-2; Rs. 9300--34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- on the CSS cadre of the Ministry of Civil Aviation with effect from the forenoon of 13th August, 2013.

2. The appointment of Shri Jai Prakash Singh against the Select List of Section Officers for year 2009 is subject to the outcome of the following Court Cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi

3. On his appointment as Section Officer, Shri Jai Prakash Singh is posted in the Ministry (main).

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 25th February 2014

No. A-12023/1/2012-E-I--In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer)'s O.M. No.4/2/2013-EO(MM-I) dated 12.02.2014, the President is pleased to appoint Shri Prasanth Kumar Ponugoti (ITS:91) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Sarvey Sathyanarayana) in Pay Band-4 Rs.37,400--67,000 + Rs.8700 Grade Pay on co-terminus basis with the Minister w.e.f. 18.02.2014 (F.N.) for the balance period of five year central deputation tenure i.e. up to 05.03.2018 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

D.R. SHARMA, Under Secy.

The 24th March 2014

No. A-12033/1/2010-E-I--Consequent upon inclusion of their names in the Select List for promotion to the Senior Selection Grade (Director) for the year 2013 and their posting as Director in this Ministry, vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Order No.3/1/2011-CS-I(D) dated 7.3.2014, the President is pleased to appoint the following officers of CSS presently working as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in this

Ministry as Director (Sr. Selection Grade of CSS) in this Ministry in Pay Band 4 Rs.37,400-67,000 + Rs.8700 Grade Pay from the dates mentioned against their names below and until further orders:-

S. No.	Name of the Officer and CSL No.	Date of appointment as Director
1.	Smt. Maya Prakash (CSL No.4664)	10.03.2014 (F.N.)
2.	Shri V. Krishnaswamy (CSL No.4290)	07.03.2014 (F.N.)

DEV RAJ SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 2014

No.A-19011/744/2006-E-I--In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's Order No.5/8/2013-CS.I(U) dated 24.12.2013 and O.M. No.5/8/2013-CS.I(U) dated 29.1.2014, the President is pleased to appoint Shri Vikram Singh a regular Section Officer of CSS (CSL No.8430) in the Ministry of Road Transport & Highways as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-3 Rs.15,600--39,100/- + Rs. 6600/- Grade Pay on purely ad-hoc basis w.e.f. 24.12.2013 (F.N.), for a period up to 31.3.2014.

2. His appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the following terms and conditions:-

- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary Grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to next higher grade.
- If he has not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, he will have to undergo the afore-said training as per nominations made by the Department of Personnel & Training.

3. He will stand relieved from the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 31.3.2014 (A.N.) with direction to report to Ministry of Defence for further orders.

D.R. SHARMA, Under Secy.

The 21st April 2014

No. A-12023/1/2013-E-I--The President is pleased to appoint Shri Somayya Kalmadi as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways (Shri Oscar Fernandes) in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 + Rs.6600 Grade Pay on co-terminus basis w.e.f. 17.6.2013 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

D.R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi – 110003, the 5th May 2014

No. 6/440/2010-Admn.I.--In accordance with DoPT's Order No. 3/1/2011-CS-I(D) dated 30.04.2014, Sh. R. P. Batra, Deputy Secretary is, appointed by promotion as Director on ad-hoc basis initially for a period of one year, or until further orders, whichever is earlier w.e.f. the forenoon of 30th April, 2014 in Pay Band 4 (Rs. 37,400--67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/-.

SURESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in